

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

पत्र क्र० एनसीएल/ज०स०वि०/प्रेसवि०/2017-18/

दिनांक- 20/05/2017

प्रेस विज्ञप्ति

कृति महिला मंडल ने किया वृद्ध महिलाओं के बीच साड़ी वितरण

अपने सामाजिक एवं कल्याणकारी कार्यों को आगे बढ़ाते हुए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के कृति महिला मंडल ने शनिवार को जरूरतमन्द वृद्ध महिलाओं के बीच साड़ी वितरण किया। साड़ी वितरण कार्यक्रम का आयोजन केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई), सिंगरौली के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में किया गया, जिसमें कृति महिला मंडल की अध्यक्ष श्रीमती नीना नाग बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थीं। साथ ही, कृति महिला मंडल की उपाध्यक्षा श्रीमती प्रतिमा पाण्डेय, श्रीमती कौशल्या शास्त्री और श्रीमती रीता सिंह बतौर विशिष्ट अतिथि उपस्थित थीं।

साड़ी वितरण कार्यक्रम में पंजरेह गांव के वार्ड नंबर 5 निवासी महिलाओं को साड़ियां, ब्लाउज और पेटिकोट बांटे गए। कार्यक्रम से 75 वृद्ध महिलाएं लाभान्वित हुईं। कपड़े पाकर सभी वृद्ध महिलाओं में बेहद खुशी का संचार हो गया और उन्होंने कृति महिला मंडल की पदाधिकारियों एवं सदस्याओं को आशीर्वाद दिया। कार्यक्रम में उपस्थित वार्ड नंबर 5 की पार्षद श्रीमती रीता राजेश गुप्ता ने साड़ी वितरण के लिए कृति महिला मंडल का आभार जताया और उम्मीद जताई कि महिला मंडल भविष्य में भी इसी प्रकार उनके क्षेत्र में कल्याणकारी कार्य करता रहेगा।

महिला मंडल कि सदस्याओं ने सभी महिलाओं को स्वच्छता का महत्व समझाया और उन्हें भविष्य में भी कृति महिला मंडल की ओर से हरसंभव मदद देते रहने का आश्वासन दिया।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरात्र कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited
(AMiniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

कार्यक्रम में कृति महिला मंडल की श्रीमती कविता कुमार, श्रीमती मंजू बिश्वाल, श्रीमती स्वप्ना मिश्रा, श्रीमती सुनीता मिश्रा, श्रीमती मालती पाठक और श्रीमती नंदा मेश्राम सहित अन्य सदस्याएं उपस्थित थीं।

गौरतलब है कि कृति महिला मंडल समय-समय पर स्थानीय लोगों के लिए कल्याणकारी कार्य करता रहता है। महिला मंडल ने गत 17 अप्रैल को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सिंगरौली में वाटर कूलर लगाया था। 6 अप्रैल को केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली के गेट पर और सीईटीआई के गेट के सामने तपती गर्मी में शीतल पेयजल से राहगीरों की प्यास बुझाने के उद्देश्य से प्याऊ लगाया था। साथ ही, गत 1 अप्रैल को सिलाई-कढ़ाई सीख रही जरूरतमंद युवतियों को सिलाई मशीनें एवं दरियां दी थीं और कढ़ाई प्रतियोगिता भी आयोजित की थी।

जनसंपर्क अधिकारी